



मानव तथा हाथी के बीच संघर्षों को रोकने के लिये हाथियों का स्थानांतरण

चर्चा में क्यों?

असम में मानव तथा हाथी के बीच संघर्ष का दौर जारी है। असम के वन्यजीव अधिकारी मानव तथा हाथी के बीच संघर्षों को कम करने के लिये उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तर्ज़ पर हाथियों का प्रतस्थापन करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन यह कार्य कहने में जतिना आसान लगता है इस कार्य को करना उतना ही मुश्किल है।

असम में हाथी गलियारों की स्थिति

उत्तर-पूर्व में 52 हाथी गलियारे हैं जो कि पूरे भारत में स्थिति हाथी गलियारों का 35% हैं, ये सभी असम में स्थिति हैं। इन गलियारों में से 15 से अधिक गलियारे जनिका प्रयोग अनुमानतः 9,350 हाथियों द्वारा कथिा जाता है, नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आते हैं।

हाथियों के नकिलने के लिये मार्ग नहीं

- मानव बस्तियों और बजिली के बाड़ तथा खाइयों जैसी बाधाओं ने इन गलियारों में से कुछ को अवरुद्ध कर दिया है, जो कभी असम के गोलपाड़ा ज़िले और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 40-50 हाथियों के दो झुंडों के आवागमन को सुगम बनाता था।
- कहीं से भी नकिलने का मार्ग न होने के कारण ये हाथी लगभग एक छोटे से क्षेत्र तक सीमति हो गए हैं।
- इन हाथियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये एक सीमति क्षेत्र में ही एक ओर से दूसरी ओर वचिरण करते रहते हैं।
- तथ्य यह है कि ज़िले में स्थिति कई आरक्षति वन क्षेत्रों तथा प्रस्तावति आरक्षति वन क्षेत्रों को अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया है। साथ ही, मछुआरों द्वारा 50 वर्ग कमी. की आरदर भूमि जिसे 'उरुपद बलि' के नाम से जाना जाता है, पर कब्ज़ा कर लिया गया है। हाथियों द्वारा इस क्षेत्र का प्रयोग आनंद लेने के लिये कथिा जाता था।

मानव तथा हाथी के बीच संघर्ष की घटनाएँ

- गोलपाड़ा में 103 आरक्षति वन क्षेत्र हैं जो ज़िले के 20% भू-भाग पर स्थिति हैं। अब से लगभग 2 वर्ष पूर्व से ही अधिकांश हाथी 300 वर्गकमी. के क्षेत्र में ही भ्रमण कर पाते हैं। अतः आवागमन के लिये पर्याप्त स्थान न होने कारण ये हाथी आक्रामक होकर गाँवों पर हमला करने लगे। इस तरह की घटनाओं में इस वर्ष अब तक 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
- वन्यजीव अधिकारियों तथा सक्रयि भागीदारों के लिये इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि जहाँ पूर्व में ये घटनाएँ केवल सर्दियों के मौसम में होती थीं अब पूरे वर्ष होती हैं।

ब्रह्मपुत्र घाटी

- ब्रह्मपुत्र घाटी बहुत अधिक संकीर्ण है, यहाँ इतना स्थान नहीं है कि मानव तथा हाथी बिना किसी संघर्ष के एक साथ नवास कर सकें।
- यह एक दुःसाध्य समस्या है क्योंकि हाथियों का आवागमन लगभग हर स्थान पर अवरुद्ध है।

समस्या नविवरण के उपाय उत्तराखंड से प्रेरति

- वन्यजीव अधिकारियों तथा पशु चकित्सकों द्वारा इस समस्या का हल नकिलने के लिये जो रणनीति तैयार की गई है उसके अनुसार, अकेले भ्रमण करने वाले आवारा हाथियों तथा अन्य प्रकार की परेशानी उत्पन्न करने वाले हाथियों को स्थानांतरति कर दिया जाए।
- यह फैसला उत्तराखंड स्थिति राजाजी नेशनल पार्क के समीप कथिे गए ऐसे प्रयास की सफलता को देखते हुए लथिा गया है।
- यहाँ भी एक आक्रामक हाथी को प्रशमक औषधि दी गई तथा उस स्थान से 40 कमी. दूर स्थिति एक नदी के पार उसे स्थानांतरति कथिा गया। हालाँकि यह हाथी कभी-कभी पहले की तरह आक्रामक हुआ लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण यह काफी शांत हो गया था।

हाथी गलियारा कथिा होता है?

- हाथी गलियारा भूमि का वह संकीर्ण भाग होता है जो दो बड़े आवासों को आपस में जोड़ता है। बहुत से ऐसे गलियारे पहले ही किसी-न-किसी सरकारी एजेंसी जैसे- वन या राजस्व वभाग के नियंत्रण में हैं। गलियारों में बड़ी वाणजियकि संपदाओं तथा अनाज या कृषि भूमि में अप्रयुक्त स्थानों को शामिल कथिा जा सकता है।

नषिकर्ष

हो सकता है कि स्थान परिवर्तन के बाद ये हाथी शांत हो जाएँ लेकिन स्थानांतरण के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है स्थानांतरण के लिये अनुकूल स्थान की तलाश।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/elephantine-threat-assam-considering-sedation-relocation-of-aggressive-animals>

